

तुरंत रिलीज के लिए

सिटी ऑफ ब्रैम्पटन अपने डाउनटाउन के पुनर्निर्माण के लिए स्ट्रीटस्केपिंग विकल्प के साथ आगे बढ़ेगी

ब्रैम्पटन, ओनटैरियो (23 सितम्बर, 2021) – सिटी ऑफ ब्रैम्पटन अपने डाउनटाउन का पुनर्निर्माण करते हुए लगातार महत्वपूर्ण कदम उठा रही है। कल ब्रैम्पटन कमेटी ऑफ काउंसिल (Brampton Committee of Council) ने सिटी के इंटीग्रेटेड डाउनटाउन प्लान (आई.डी.पी.) (Integrated Downtown Plan) (IDP) के पहले फेज के हिस्से के तौर पर स्ट्रीटस्केपिंग काम में 16.6 मिलियन डॉलर के निवेश की मंजूरी दी।

डाउनटाउन ब्रैम्पटन (Downtown Brampton) का पुनर्निर्माण हो रहा है क्योंकि सिटी, ब्रैम्पटन के निवासियों के लिए जीवन क्वालिटी में सुधार करने के लिए लोकल जरूरतों को पूरा करने, आर्थिक बहाली की हिमायत करने, नौकरियां पैदा करने और जोशीली, स्थिर कम्युनिटीज बनाकर, पब्लिक स्थानों के बारे में नए सिरे से विचार करके उन्हें नया बना रही है। रीजन ऑफ पील (Region of Peel) के डाउनटाउन इंफ्रास्ट्रक्चर कार्य के साथ पूरे सहयोग में, सिटी स्ट्रीटस्केपिंग पहलकदमियों को आगे बढ़ाएगी, जिनमें शामिल हैं, मौजूदा साइडवॉक्स की जगह पर पत्थर की सड़कें बनाना और क्वीन (Queen) और मेन स्ट्रीट्स (Main Streets) के दोनों तरफ सड़कों का चौड़ी साइडवॉक्स में पुनर्निर्माण करना। लगभग 16.6 मिलियन डॉलर का यह निवेश, कमर्शियल गतिविधि, पैदल चलने वालों और साइकिल चलाने वालों के लिए बढ़िया किस्म के शहरी स्थान बनाने में सहायता करेगा। साथ ही, यह एटोबीको और फ्लैचर्स क्रीक्स के बीच में एक्टिव लिंक बनाएगा और डाउनटाउन कोर में बढ़ा हुआ पैदल यात्री क्षेत्र बनाएगा।

स्टाफ को आई.डी.पी. (IDP) की मंजूरी पूरी करने के लिए डाउनटाउन ब्रैम्पटन स्ट्रीटस्केप मैनुयल (Downtown Brampton Streetscape Manual) विकसित करने का निर्देश दिया गया है, जिसमें डाउनटाउन ब्रैम्पटन के अंदर विविध लोकल नेबरहुड्स को इस बारे में बताया जाएगा।

इसके अलावा, स्टाफ डाउनटाउन में अस्थायी और लंबी-अवधि के शहरी डिज़ाइन एक्टिवेशन्स के लिए विकास संबंधी अवसरों का अध्ययन करने के लिए 8-सप्ताह की अर्बन डिज़ाइन एक्टिवेशन स्ट्रैटजी (Urban Design Activation Strategy) का आयोजन करेगी। इसमें ये काम शामिल होंगे, लेकिन इससे अधिक काम भी हो सकते हैं, मेन स्ट्रीट (Main Street) से डाउनटाउन तक समर्पित बाइक लेन्स की इंस्टॉलेशन, साइडवॉक पर इधर-उधर रखे जाने योग्य प्लांटर्स और लैंडस्केपिंग एलिमेंट्स की स्थापना, सेमी-माउंटेबल कर्ब्स, चौराहों पर स्ट्रीट प्रिंट और रास्ता बताने वाले साइन बोर्ड तथा टेलीकम्युनिकेशन्स के लिए भविष्य की फाइबर ऑप्टिक्स लगाने के लिए निर्माण के अंदर अतिरिक्त डक्ट्स की इंस्टॉलेशन।

सिटी जल्दी ही डिज़ाइन बनाना शुरू कर सकती है। यह डिज़ाइन 2023 के शुरू में पूरा होने की उम्मीद है। ब्रैम्पटन की डाउनटाउन कारोबार कम्युनिटी पर कोविड-19 (COVID-19) महामारी का बहुत बुरा असर हुआ है और सिटी उनकी आर्थिक बहाली में रुकावटों को कम करने और उनकी हिमायत करने के लिए समर्पित है।

सिटी डाउनटाउन के उत्साह की हिमायत करने के लिए, लगातार छोटी अवधि की कार्यनीतियां भी निर्धारित कर रही है, जो अगले दो वर्षों के अंदर लागू की जा सकती हैं। कल अपनी मीटिंग में, कमेटी ने डाउनटाउन ब्रैम्पटन में सिटी के स्वामित्व वाले स्टोरफ्रंट्स पर और क्वीन स्ट्रीट ईस्ट (Queen Street East) पर सिटी और रीजनल स्वामित्व वाले ट्रैफिक कंट्रोल बॉक्सेज पर, भित्ति-चित्रों (मुराल्स) की इंस्टॉलेशन की मंजूरी दी, जो STEPS के साथ सलाह करके विकसित और प्रस्तावित किए गए हैं।

इंटीग्रेटेड डाउनटाउन प्लान के बारे में

डाउनटाउन ब्रैम्पटन की कई जारी पहलकदमियों और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के साथ कोआर्डिनेट करते हुए – आई.डी.पी. काम करने के लिए एक रोडमैप है। इसकी 2051 तक भविष्य की वृद्धि और कार्यनीति संबंधी निवेश के संबंध में मार्गदर्शन करने की संभावना है।

आई.डी.पी. के मार्गदर्शन वाले सिद्धांत, भागीदारी, इनोवेशन और स्थिरता वाले हैं। यह ब्रैम्पटन को महत्वपूर्ण आर्थिक संचालक, रीजनल सांस्कृतिक हब और इनोवेशन डिस्ट्रिक्ट (Innovation District) की स्थिति में लाते हुए – इंफ्रास्ट्रक्चर अपग्रेड्स, शहरी डिज़ाइन, ज़मीन के प्रयोग और प्रोग्रामिंग दखलों को कोआर्डिनेट करने में मदद करेगा।

आई.डी.पी. के बारे में अधिक जानकारी के लिए, www.brampton.ca/IDP पर जाएं।

हवाले

“हम डाउनटाउन ब्रैम्पटन को दुबारा शक्तिशाली बनाने और इसकी क्षमता का लाभ लेने के लिए काम कर रहे हैं। सिटी के इंटीग्रेटेड डाउनटाउन प्लान के पहले फेज के हिस्से के तौर पर स्ट्रीटस्केपिंग काम में 16.6 मिलियन डॉलर के इस निवेश की मंजूरी देते हुए, हम बढ़िया किस्म की शहरी जगह और हमारे डाउनटाउन कोर में बढ़ा हुआ पैदल यात्री क्षेत्र बनाने के एक और कदम पास आ गए हैं। मैं डाउनटाउन ब्रैम्पटन को हमारे निवासियों, कारोबारियों और आगंतुकों के लिए, लगातार जोशीली और स्थिर कम्युनिटी में बदलते हुए देखने के लिए उत्साहित हूँ।”

- पैट्रिक ब्राउन (Patrick Brown), मेयर, सिटी ऑफ ब्रैम्पटन

“हमारे डाउनटाउन के कारोबारियों पर कोविड-19 (COVID-19) महामारी का बहुत बुरा असर हुआ है और हम आर्थिक बहाली के सफर पर उनकी सहायता करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। डाउनटाउन की सहायता के लिए कंप्लीमेंटरी छोटी अवधि की कार्यनीतियों के साथ, यह स्ट्रीटस्केपिंग प्रोजेक्ट, ब्रैम्पटन को आर्थिक संचालक, रीजनल सांस्कृतिक हब और इनोवेशन डिस्ट्रिक्ट की स्थिति में लाएगा। हम उन फायदों के लिए उत्साहित हैं, जो इंटीग्रेटेड डाउनटाउन प्लान हमारे डाउनटाउन, निवासियों और लोकल कारोबारियों के लिए लेकर आएगा।”

- पॉल विसेंट (Paul Vicente), रीजनल काउंसलर, वार्ड्स 1 और 5; चेयर, पब्लिक वर्क्स एंड इंजीनियरिंग, सिटी ऑफ ब्रैम्पटन

“सिटी में, हम हमारे डाउनटाउन को फिर से शक्तिशाली बनाने और हमारे निवासियों के लिए रहने, काम करने और खेलने के लिए संपूर्ण कम्युनिटीज बनाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। पब्लिक आर्ट इंस्टालेशनस और अर्बन डिज़ाइन एक्टिवेशन स्ट्रैटजी जैसी कंप्लीमेंटरी पहलकदमियों के साथ-साथ, हमारे इंटीग्रेटेड डाउनटाउन प्लान के पहले फेज के साथ आगे बढ़ते हुए, हम नौकरियां पैदा करने, आर्थिक बहाली की हिमायत करने और हमारे निवासियों की जीवन क्वालिटी में सुधार करने के लिए, हमारे पब्लिक स्थानों के बारे में नए सिरे से विचार करके उन्हें नया बना रहे हैं।”

- डेविड बैरिंक (David Barrick), चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव अफसर, सिटी ऑफ ब्रैम्पटन

“डाउनटाउन ब्रैम्पटन बी.आई.ए. की ओर से, हमें डाउनटाउन ब्रैम्पटन के लिए बहुत ज्यादा आवश्यक पुनर्निर्माण पर स्टाफ की योजनाओं और प्रोजेक्ट्स के बारे में सुनकर बहुत खुशी हुई थी। हमें पूरा यकीन है कि हमारे शहर के प्लानिंग और अर्बन डिज़ाइन विशेषज्ञ इस बेहद परिवर्तनकारी प्लान को आगे बढ़ाएंगे, जो कल कमेटी ऑफ काउंसिल में पेश किया गया था।”

- कैरि पर्सिवल (Carrie Percival), चेयर, डाउनटाउन ब्रैम्पटन बी.आई.ए.

“डाउनटाउन ब्रैम्पटन बी.आई.ए., सिटी ऑफ ब्रैम्पटन और उभरते हुए डाउनटाउन ब्रैम्पटन कल्चरल हब और इनोवेशन डिस्ट्रिक्ट के लिए इन निवेश में काउंसिल की लीडरशिप के लिए उनका धन्यवाद करता है, जो डाउनटाउन के लिए सचमुच इसकी क्षमता का लाभ लेने की शुरुआत है।”

- सूज़ी गॉडफ्रॉय (Suzy Godefroy), एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, डाउनटाउन ब्रैम्पटन बी.आई.ए.

-30-

कैनेडा में सबसे अधिक तेजी से बढ़ने वाले शहरों में से एक के तौर पर, ब्रैम्पटन 700,000 लोगों और 75,000 कारोबारियों का घर है। हम जो भी करते हैं, लोगों को ध्यान में रखते हुए करते हैं। हम अपने विविध समुदायों से उत्साहित होते हैं, हम निवेश को आकर्षित करते हैं और हम तकनीक और वातावरण संबंधी नवीनता को आगे बढ़ाने के सफर पर हैं। हम एक ऐसा स्वस्थ शहर बनाने में प्रगति के लिए सहभागिता करते हैं, जो सुरक्षित, स्थिर व सफल हो। हमारे साथ [Twitter](#), [Facebook](#), और [Instagram](#) पर जुड़ें। www.brampton.ca पर और जानें।

मीडिया संपर्क

मोनिका दुग्गल (Monika Duggal)

कोऑर्डिनेटर, मीडिया एंड कम्युनिटी एन्गेजमेंट

स्ट्रैटजिक कम्युनिकेशन

सिटी ऑफ ब्रैम्पटन

905-874-3426 | Monika.Duggal@brampton.ca